



क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

अनुबंध ANNEXURE-III

(बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट करने हेतु **TO BE POSTED ON BANK'S WEBSITE**)

Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)
(A Society/Trust Sponsored by Central Bank of India)

Engagement of Faculty, Office Assistant and Watchman for RSETIs
Jabalpur/Mandla (Rural Self Employment Training Institutes) on contract basis
for the year 2023-24

महत्वपूर्ण- आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि: . **05.02.2024**

IMPORTANT: LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATION: 05.02.2024

Vacancy

संकाय Faculty – 02 Posts (1-Jabalpur, 1-Mandla)

कार्यालय सहायक Office Assistant - 02 Posts (1-Jabalpur, 1-Mandla)

चौकीदार Watchman - 01 Posts (1-Jabalpur)

सोसाईटी/ट्रस्ट प्रोफाइल Society/Trust Profile:

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीबीआई-एसयूएपीएस), सोसाईटी/ट्रस्ट जोकि सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं जिसका मुख्यालय मुम्बई में है, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रायोजित हैं तथा अपने 46 आरसेटी तथा 50 एफएलसीसी केन्द्रो जोकि देश के 50 जिलों में स्थित हैं जोकि ग्रामीण युवाओं को उनके स्वयं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने तथा वित्तीय साक्षरता पर ग्रामीण जनसमुदाय के बीच जागरूकता लाने में लगा हुआ है, के द्वारा वार्षिक संविदा आधार पर संकाय, कार्यालय सहायक एवं चौकीदार (जो लागू नहीं उसको काट देवे) की सेवाये लेने हेतु उनकी खोज जबलपुर एवं मंडला केन्द्र हेतु कर रहा है

Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS), a Society/Trust, (registered under Society Registration Act 1860 with Head Office at Mumbai), sponsored by Central Bank of India and engaged in imparting training to rural youth for their self-employment and bringing awareness among rural masses on financial literacy through its 46 RSETI & 50 FLCC centres located in 50 districts of the country, is looking for engaging the services of Faculty, Office Assistant & Watchman on Annual Contract basis for our RSETI centres at-Jabalpur & Mandla

. The last date for Receipt of application will be 05.02.2024.

स्थान Place: Jabalpur

दिनांक Date: 15.01.2024

क्षेत्रीय प्रबंधक/अध्यक्ष (स्थानीय परामर्शदाता समिति)
Regional Manager/Chairman (LAC)

Regional Office Jabalpur, Gwarighat Road Polypathar, In Front Of South Avenue Mall, Jabalpur
482008 ☎ Tel : 0761-2662695

1. आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव

AGE, QUALIFICATION & EXPERIENCE

क्र०Sr. No.	पद का नाम Name of the Post	आयु Age	शैक्षणिक योग्यता Qualification	अनुभव / अन्य पात्रता मानदण्ड Experience / Other eligibility criteria.
1.	संकाय Faculty No of Vacancy – 02 (1-Jabalpur, 1-Mandla)	अच्छे स्वास्थ्य के साथ 21-40 वर्ष की आयु 21-40 years with sound Health	आवश्यक Essential: (i) सनाकोत्तर एम.एस.डब्लू / एम.ए ग्रामीण विकास/ एम.ए (समाज शास्त्र)/ मनोविज्ञान/ बी.एससी (कृषि)/ बीए, बी. एड सहित) आदि। Shall be post graduate viz. MSW/MA in Rural Development/ MA in Sociology/Psychology/BSc (Agri.)/BA with B Ed etc.	आवश्यक Essential: 1. स्थानीय भाषा के अच्छे जानकार हों Should be well conversant with local language. 2.उसी जिले या नजदीकी जिले का निवासी हो /आरसेटी केंद्र के मुख्यालय का निवासी हो Should be resident of preferably the same or nearby district/residing at the head quarter of RSETI Centre.
2.	कार्यालय सहायक Office Assistant No Of vacancy- 02 (1-Jabalpur, 1 Mandla)	अच्छे स्वास्थ्य के साथ 18-35 वर्ष की आयु 18-35 years with sound Health	आवश्यक Essential: (i) स्नातक जैसे बीएसडब्लू / बीए / बी कॉम ग्रेजुएट हो। Shall be graduate viz. BSW/ BA.B.com with computer knowledge. वांछनीय Desirable: बेसिक अकाउंट एवं बूक कीपिंग का ज्ञान Knowledge in basic accounts & book keeping.	आवश्यक Essential: 1. स्थानीय भाषा के अच्छे जानकार हों Should be well conversant with local language. 2.उसी जिले या नजदीकी जिले का निवासी हो /आरसेटी केंद्र के मुख्यालय का निवासी हो Should be resident of preferably the same or nearby district/residing at the head quarter of RSETI Centre.
3.	चौकीदार Watchman No Of vacancy- 01 (1-Jabalpur)	आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के बीच Between 18 years to 35 years as on the last date of the receipt of the application	8 वी श्रेणी ऊर्तीर्ण होना अनिवार्य Shall be 8th Standard passed	जबलपुर जिले का रहवासी हो Should be resident of Jabalpur District.

Regional Office Jabalpur , Gwarighat Road Polypathar, In Front Of South Avenue Mall, Jabalpur

482008 ☎ Tel : 0761-2662695



** पिछले नियोक्ता/से संकाय, ग्रामीण विकास के रूप में कार्य करने के सेवा प्रमाणपत्र को स्वतः प्रमाणित करके आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे . मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा

****A Self attested copy of service certificate from the previous employer/experience of working as Faculty, Rural Development be submitted along-with the application. Original be produced at the time of interview.**

2. संविदा अवधि, राशि तथा अन्य यात्रा व्यय

CONTRACT PERIOD, AMOUNT AND OTHER TRAVELLING EXPENSES:

उम्मीदवार को संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जावेगा . संविदा का नवीनीकरण समिति के विवेक पर तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन होगा

The candidate shall be appointed on Contract basis for a period of one year. Renewal of contract may be considered at the sole discretion of Society/Trust and subject to satisfactory performance.

कोई भी व्यक्ति जो अन्य कहीं नियुक्त हुआ हो उसको वर्तमान विज्ञापन में दिये गये पद के लिये चयन पर संविदात्मक आधार कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी

No person employed elsewhere will be allowed to work on instant advertised post after being selected for the contractual engagement.

3. संविदा, राशि तथा अन्य यात्रा व्यय

CONTRACT AMOUNT AND OTHER TRAVELLING EXPENSES:

संविदा राशि


- संकाय के प्रकरण में :
- In case of Faculty:

संविदा राशि प्रतिमाह **₹20,000/-** निश्चित होगी कोई अन्य भत्ते /लाभ /भुगतान/सुविधा स्वीकार्य नहीं होंगे

- The contract amount shall be fixed at **Rs.20,000/-** per month. No other allowance/benefit/payment/facility will be admissible.



Regional Office Jabalpur , Gwarighat Road Polypathar, In Front Of South Avenue Mall, Jabalpur

482008  Tel : 0761-2662695

• कार्यालय सहायक के प्रकरण में :

• In case of Office Assistant:

संबिदा राशि प्रतिमाह ₹12,000/- निश्चित होगी कोई अन्य भत्ते /लाभ /भुगतान/सुविधा स्वीकार्य नहीं होंगे

- The contract amount shall be fixed at Rs.12,000/- per month. No other allowance/benefit/payment/facility will be admissible.

• चौकीदार के प्रकरण में

• In case of Watchman:

• संबिदा राशि प्रतिमाह ₹ 8,000/- निश्चित होगी कोई अन्य भत्ते/लाभ /भुगतान/सुविधा स्वीकार्य नहीं होंगे

- The contract amount shall be fixed at Rs. 8,000/- per month. No other allowance/benefit/payment/facility will be admissible.

4. अवकाश

LEAVE:

उम्मीदवार को प्रतिमाह अधिकतम 02 दिन के अवकाश सहित प्रतिवर्ष 15 दिन के अवकाश की पात्रता होगी The candidates shall be entitled for 15 days leave per year with maximum of 02 days per month.

5. जाब प्रोफाईल


JOB PROFILE:

• संकाय हेतु

• For Faculty:

संस्थान को चलाने में निदेशक को सहायता प्रदान करना। प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन , वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लोजिस्टिक्स, नोट्स तैयार करना, प्रशिक्षण सत्र को संभालना, आगे की करवाही करना आदि।

The functioning of the Faculty shall be broadly to assist the Director in conducting Training and Awareness Programmes, Generation of Application & Selection of Candidate, Preparation of Annual Action Plan, Logistics for Training Programme, Handling Sessions, Preparation of notes, Follow up and other similar activities of the centre.



- **कार्यालय सहायक हेतु**
- **For Office Assistant:**

संस्थान को चलाने में सहायता तथा निदेशक को सहायता प्रदान करना
Assisting the Director & Faculty in functioning of the Institute.

खातो, वाउचरो, बहियो/रजिस्ट्रों का रखरखाव, डाटा को अपडेट रखना, आवधिक रिपोर्ट बनाना, केंद्र की इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों तथा अनुवर्ती कार्यवाही
Maintaining Accounts, Vouchers, Books/Register, Updating data, Periodicals Reports, Follow up and similar other activities of the centre.

- **परिचर/उप कर्मचारी Attender/Sub-Staff**

परिचर को सेंट आरसेटी /सेंट एफ़एलसीसी सेंटर के प्रभारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उप कर्मचारी के रूप में कार्य करना होगा
Attender will perform the duties as sub-staff under and as per the direction/instructions given by In-charge, Cent RSETI/Cent FLCC centre.

- **चौकीदार Watchman**

चौकीदार को सेंट आरसेटी /सेंट एफ़एलसीसी सेंटर के प्रभारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चौकीदार के रूप में कार्य करना होगा
Watchman will perform the duties per the direction/instructions given by In-charge, Cent RSETI/Cent FLCC centre to guard the premises.

6. **चयन प्रक्रिया SELECTION PROCEDURE:**

पात्र उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय सोसाईटी /ट्रस्ट का ही रहेगा

The eligible candidates will be called for personal interview and the decision of the Society/Trust in this regard shall be final.



7. आवेदन प्रस्तुत करना SUBMISSION OF APPLICATION:

पात्र उम्मीदवार को अपना आवेदन दिये गये प्रारूप (अनुबंध) में प्रस्तुत करना होगा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 05.02.2024 हैं निर्धारित दिनांक के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा अधूरे आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे

Eligible candidates have to submit their applications in the given format (Annexure). Last date for receipt of application is 05.02.2024. No applications shall be entertained beyond the stipulated date. Incomplete applications will be rejected.

आवेदन भेजने हेतु पता उस पर 'वर्ष. 2023-24 के लिये संविदा आधार पर आरसेटी जबलपुर एवं मंडला हेतु "कार्यालय सहायक/उप कर्मचारी के पद हेतु आवेदन" लिखकर नीचे दिये पते पर भेजे-

क्षेत्रीय प्रबंधक/अध्यक्ष स्थानीय सलाहकार समिति
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया क्षेत्रीय कार्यालय,
पोलिपाथर, ग्वारिघट रोड, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने
जबलपुर-482008

Address the application, Superscribing "Application for the post of office assistant/Sub-Staff at RSETI Jabalpur/Mandla centre on contract for the year 2023-24" to following address-

Regional Manager/Chairman, LAC RSETI,
Central Bank of India, Regional Office,
Polipathar, Gwarighat Road, In front of South Avenue Mall,
Jabalpur-482008.

8. आवेदन शुल्क

APPLICATION FEE:


कोई भी निर्धारित शुल्क नहीं हैं

There is no application fee prescribed.

9. सामान्य अनुदेश

GENERAL INSTRUCTIONS:

- (a) पद हेतु आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उपरोक्त उल्लेखित पात्रता मानदण्डों/अन्य मानदण्डों को पूरा करता हैं तथा सभी प्रस्तुत विवरण सभी तरह से सही हैं . यदि यह पाया जाता है कि भर्ती की किसी भी स्टेज में उम्मीदवार पात्रता मानदण्डो को पूरा नहीं करता है तथा/या यह कि उसने गलत सूचना दी हैं या किसी तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जावेगी यदि नियुक्ति के बाद उपरोक्त कोई भी कमीयां पाई जाती हैं तो उसका संविदा बिना किसी नोटिस के समाप्त हेतु दायी होगा .

Regional Office Jabalpur , Gwarighat Road Polypathar, In Front Of South Avenue Mall, Jabalpur
482008  Tel : 0761-2662695



While applying for the post, the applicant should ensure that he/she fulfills the eligibility criteria and other norms mentioned above and that the particulars furnished are correct in all respects. In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility norms and / or that he/ she has furnished any incorrect / false information or has suppressed any material fact (s), his / her candidature will automatically stand cancelled. If any of the above shortcoming(s) is / are detected even after engagement, his / her contractual engagement is liable to be terminated without any notice.

- (b) सुयोग्य एवं पात्र प्रकरणों में उपरोक्त उल्लेखित अपेक्षित पात्रता शर्त में छूट सोसाईटी/ट्रस्ट के प्रबंधन के विवेक पर दी जा सकती हैं. सोसाईटी/ट्रस्ट के प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये उपरोक्त विज्ञापन में दी गई स्थिति को भरे अथवा नहीं भरे.

In case of suitable and deserving cases, any of the requirements and conditions of eligibility mentioned above, may be relaxed at the discretion of the Management of Society/Trust. The Management of Society/Trust reserves the right to fill or not to fill the above advertised position without assigning any reason thereof.

- (c) विज्ञापन के बदले केवल अपना आवेदन दे देने तथा विज्ञापन में दिये गये मानदण्डों को पूरा कर देने भर से साक्षात्कार के लिये बुलावा पत्र देने का अधिकारी नहीं होगा

Mere admission of application against the advertisement and apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would not bestow on him / her right to be called for interview.



APPLICATION FOR THE POST OF OFFICE ASSISTANT AT RSETI-JABALPUR / MANDLA (CHECK ANY ONE)
ON CONTRACTUAL BASIS

To,
The Regional Head
Central Bank of India
Regional Office,
Infront of South Avenue Mall,
Polipathar, Jabalpur
Madhya Pradesh – 482008

Paste Passport
size photograph

Please sign
across the
photograph

With reference to your advertisement on Bank's Website dated _____. I, submit my application for the post of **Office Assistant** at Cent-RSETI-**Jabalpur/Mandla (check any one)** in prescribed format as under:

1.	Name (in full)	:	
2.	Address for Correspondence	:	
3.	If person with Disability:		
	Type of disability	:	
	Percentage of disability	:	
4.	Date of Birth (as per School leaving Certificate)	:	
	Age in completed years as on 01/06/2023	:	
5.	Contact Details:		
	Mobile No.	:	
	Landline No.	:	
	e-mail ID	:	
6.	Gender	:	
7.	Nationality	:	
8.	Religion	:	
9.	Martial Status	:	
10.	Father's/Husband's name	:	
11.	Permanent Address	:	

12. EDUCATIONAL QUALIFICATION:

Qualification	Details (SSC/HSC (10+12)/B.A/B. Sc/M.A/ M. Sc. Etc.)	Board/ University	Full Time/ Part-Time	Year of Passing	Subject	Marks (Rank if any)
SSC/HSC (10+12)						
Graduation						
Professional Qualification						
Others						
Computer (Diploma/Degree /Certificate)						

Note: Please attach copy of certificate duly attested by self or any Gazetted officer.

13. For Faculty only:

A. RELATIVE EXPERIENCE (if any) _____ Total (in years) _____.

S No	Institution	Designation	Duration From To	Responsibilities	Achievements

B. For Retired Officials:

Retired on VRS/ Superannuation	:	
Name of the organization from which retired	:	
Total years of service	:	Years.
Out of which as an officer in organization/ rural development institution/ faculty in training centre.	:	Years.
No. of years worked as rural banch manager/ field officer in case of bank's services.	:	
Date of issue of service certificate of previous employer	:	

Note: Attach self-attested copy of service certificate of previous employer/ experience of Faculty, Rural Development from organization/ institutions concerned.

14.	<u>Details of Present Employment</u>		
	(a)	Organisation	:
	(b)	Full Address	:
	(c)	Position	:
	(d)	Reporting to	:
	(e)	Salary/ Compensation Presently drawn	:
15.	Brief details of experience in the Bank/ other institution in respect of working in Rural Area as Rural Development in-Charge/ Bank Official and Faculty in training centre. (for faculty only)		
16.	Significant Achievement (if any) in respect of above assignments (for faculty only):		
17.	Name & Address of two references:		
(1)		(2)	

DECLARATION:

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of knowledge and belief and I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements of the relative advertisement, my candidature/ appointment for the said post is liable to be cancelled/ terminated at any stage and if appointed, my service are liable to be terminated.

I hereby agree that any legal proceedings in respect of any matter of claims or disputes arising out of this application and/ or out of said advertisement can be instituted by me only at Mumbai and Courts/ Tribunals/ Forums at Mumbai and undertake to abide by all the terms and conditions mentioned in the advertisement displayed on Bank's website dated _____.

(Signature of applicant)

Place : _____

Date : _____

Enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.